



BULANDSHAHR POLICE



दिनांक 18 जलाई 2022

थाना कोतवाली देहात

मोबाइल लूट/चोरी करने वाले गिरोह के 05 शातिर सदस्य गिरफ्तार, कब्जे से लूट/चोरी किए गए 13 मोबाइल फोन, 02 बाइक एवं अवैध असलहा बरामदा

जनपद में अपराधों पर अंकुश लगाये जाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 17-07-2022 को थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा एक अभिसूचना के आधार पर मोबाइल छिनने/चोरी करने वाले गिरोह के 05 शातिर सदस्यों को हजरतपुर बम्बा पुलिसिया के पास से दो मोटरसाईकिल एवं लूट/चोरी गये 13 मोबाइल फोन, अवैध असलहा आदि सहित गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1. राहुल पुत्र वीरेंद्र सिंह निवासी बीसा कॉलोनी थाना कोतवाली नगर जनपद बुलंदशहर।
2. साजिद पुत्र शाहिद निवासी उपरोक्त।
3. सुहेब पुत्र जमीर निवासी मौ0 शांति नगर भूड थाना कोतवाली नगर जनपद बुलंदशहर
4. सलमान पुत्र साबिर निवासी उपरोक्त
5. साजिद पुत्र इसहाक निवासी मौ0 शांति नगर भूड गली नं0-3 कोतवाली नगर जनपद बुलंदशहर

बरामदगी-

- 1- चोरी/लूट के 13 मोबाइल फोन(विभिन्न कम्पनी)
- 2- 01 अपाचे मोटरसाईकिल बिना नम्बर(दिल्ली से चोरी)
- 3- 01 प्लेटिना मोटरसाईकिल नं0 यूपी-13एएक्स-1296
- 3- 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस
- 3- 04 नाजायज चाकू

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि हम लोग बाइकों पर सवार होकर राह चलते लोगों को चाकू व तमंचो से डराकर उनके मोबाइल फोन लूट लेते हैं। इस प्रकार लूट की घटनाओं को अंजाम देने के बाद मोबाइल फोन को एकत्रित कर मोबाइल को सस्ते दामों में अंजान लोगों को बेचकर अपना खर्चा चलाते हैं तथा मौज मस्ती करते हैं। आज भी लूटे गये मोबाइलों को बेचने के लिए जा रहे थे।

अभियुक्तों से बरामद मोबाइल फोन में से एक ओप्पो मोबाइल फोन 12-07-2022 को थाना कोतवाली देहात क्षेत्रांतर्गत अनुपशहर रोड जुलेपुरा के पास एक व्यक्ति से लूटा गया था जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 565/22 धारा 392 भादवि पंजीकृत है तथा एक रेडमी मोबाइल फोन को दिनांक 14-07-2022 को स्याना चौराहे से एक व्यक्ति से लूटा गया था जिसके संबंध में थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 566/22 धारा 392 पंजीकृत है। अभियुक्तों द्वारा शेष बरामद मोबाइल फोन को बुलन्दशहर के आस पास अन्य लोगो से छिने एवं चोरी किए गये हैं जिनके सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है। अभियुक्त साजिद व सलमान द्वारा बरामद अपाचे मोटरसाईकिल को थाना ब्रहमपुरी दिल्ली क्षेत्र से चोरी करना बताया है जिसके सम्बन्ध में थाना ब्रहमपुरी दिल्ली पर मु0अ0सं0 9316/20 धारा 379 भादवि पंजीकृत है।

अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. श्री विकास प्रताप सिंह चौहान (पुलिस उपाधीक्षक प्रशिक्षु) थानाप्रभारी कोतवाली देहात
2. उ0नि0 रविन्द्र कुमार, उ0नि0 सोबरन सिंह
3. का0 गौरव कुमार, का0 अरुण कुमार, का0 अंकुर यादव, का0 सौरभ कुमार, का0चालक हरेन्द्र कुमार



मीडिया सैल बुलन्दशहर